

**प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती**

दिनांक:- 20.11.2021

**थाना कलवारी व एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही के
दौरान पुलिस मुठभेड़ में वांछित 25,000/- रु0 का इनामिया अभियुक्त
गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कलवारी/रुधौली श्री अम्बिका राम के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कलवारी श्री अरविन्द कुमार शाही व प्रभारी एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम सेमरा चीगन में मुंडन संस्कार में डीजे बजाने को लेकर अभियुक्त द्वारा लोहे की पाइप से हत्या करने की नीयत से मारने के सम्बंध में थाना कलवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 245/21 धारा 307, 504, 506 IPC में वांछित अभियुक्त मस्तराम पुत्र उदयराज को रानीपुर पुल से गोविंदापुर मार्ग पर पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के दाहिने पैर में व आरक्षी करमचंद के दाहिने बांह में कोहनी के उपर लगी गोली लगी, घायल अभियुक्त व आरक्षी को उपचार हेतु सीएचसी कलवारी लाया गया।

बरामदगी व पुलिस कर्मियों पर फायर करने के सम्बंध में थाना कलवारी पर मु0अ0सं0 251/2021 धारा 307,506 IPC व मु0अ0सं0 252/2021 धारा 3/25/27 A. Act पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त पर रुपये 25,000/- के इनाम की घोषणा पूर्व में की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- मस्तराम पुत्र उदयराज निवासी सेमरा चिगन थाना कलवारी जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण-

- 1- एक अदद तमंचा 315 बोर |
- 2- 01 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया की मेरी रंजिश लव कुश से थी लेकिन अमरजीत बीच में आ गया जिससे उसे मार दिया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थानाध्यक्ष कलवारी श्री अरविन्द कुमार शाही जनपद बस्ती ।
- 2- प्रभारी एंटी व्हीकल थेफ्ट श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह जनपद बस्ती ।
- 3- उ0नि0 श्री राम वशिष्ठ उ0नि0 संजय कुमार थाना कलवारी जनपद बस्ती ।
- 4- हे0का0 अवनिन्दर सिंह, का0 धर्मेन्द्र, का0 करमचन्द्र, का0 कमलेश यादव थाना कलवारी जनपद बस्ती ।
- 5- हे0का0 रामसुरेश, हे0का0 अजय दुबे, का0 राकेश एंटी व्हीकल थेफ्ट जनपद बस्ती ।